

चल संपत्ति के लेन-देन हेतु सी. सी. एस (आचरण) नियम, १९६४ के नियम १८(३) के  
अंतर्गत सूचना देने अथवा अग्रिम अनुमति लेने हेतु प्रपत्र

**FORM FOR GIVING INTIMATION OR SEEKING PREVIOUS SANCTION UNDER RULE 18(3) OF THE  
CCS (CONDUCT) RULES 1964 FOR TRANSACTION IN RESPECT OF MOVABLE PROPERTY**

1.	नाम Name	पदनाम Designation
2.	वेतनमान व वर्तमान वेतन Scale of pay and present pay	
3.	निवेदन का मंतव्य Purpose of application	लेन-देन की अनुमति/लेन-देन की सूचना Sanction for transaction/intimation of transaction
4.	क्या संपत्ति अर्जित /निपटान किया जा रहा है Whether property is being acquired or disposed of	
5.	क) संपत्ति के अर्जन/निपटान की संभावित तिथि a) Probable date of acquisition/disposal of property	
	ख) यदि संपत्ति पहले ही अर्जित/निपटान की जा चुकी है - लेन-देन की वास्तविक तिथि b) If the property is already acquired/disposed of – actual date of transaction	
6.	क) संपत्ति का विवरण (जैसे कि कार/ स्कूटर/ मोटर साइकल/ फ्रिज/ रेडियो/ रेडियोग्राम/ टीवी/ जेवरात/ कर्ज/ बीमा पालिसियों आदि) a) Description of the property (e.g. car/ scooter/ motor cycle/ refrigerator/ radio/ radiogram/ TV/ jewellery/ loans/ insurance policies, etc.)	
	ख) मेक, माडल (और वाहनों के विषय में पंजिकरण संख्या, जैसा आवश्यक हो) b) Make, model (and also registration no. in case of vehicles), where necessary	
7.	अर्जन/निपटान की पद्धति (खरीद/विक्रय, तोहफा, गिरवी, लीज या अन्य प्रकार से)/Mode of acquisition/disposal (Purchase/sale, gift, mortgage, lease or otherwise)	
8.	संपत्ति के क्रय/विक्रय का मूल्य (तोहफों के मामले में उनका बाजार भाव) / Sale/purchase price of the property (market value in the case of gifts)	
9.	अर्जन के मामले में, स्रोत व स्रोतों से अर्थ-प्रबंध किया/किया जाना है/In case of acquisition, source or sources from which financed/proposed to be financed	
	क) निजी बचत a) Personal savings	
	ख) अन्य स्रोत, विवरण दें b) Other sources, giving details	
10.	संपत्ति के निपटान के मामले में, क्या उसके अर्जन हेतु अपेक्षित अनुमति/सूचना ली/दी गई थी (अनुमति/स्वीकृती की प्रति संलग्न करना होगा) / In the case of disposal of property, was requisite sanction/intimation obtained/given for its acquisition (a copy of the sanction/acknowledgement should be attached)	

11.	क) पक्ष का नाम व पता जिसके साथ लेन-देन होने की अपेक्षा है/हो चुकी है a) Name and address of the party with whom transaction is proposed to be made/ has been made	
	ख) क्या पक्ष निवेदक से नाता रखता है ? यदि हाँ, तो नातेदारी बताएँ b) Is the party related to the applicant? If so, state the relationship	
	ग) क्या निवेदक का उस पक्ष से अधिकारिक क्षमता में कभी कोई लेन-देन हुई है, या भविष्य में लेन - देन की संभावना है ? c) Did the applicant have any dealings with the party in his official capacity at any time, or is the applicant likely to have any dealings with him in the near future?	
	घ) पार्टी से अधिकारिक लेन-देन की प्रकृति d) Nature of official dealings with the party	
	ड) लेन-देन कैसे व्यवस्थित की गई थी ? (क्या कियी वैधानिक संस्था या निजि एजेंसी के द्वारा, इशतेहार के द्वारा, अथवा मित्रों या बंधुओं के द्वारा, पूर्ण विवरण दें ) e) How was the transaction arranged? (Whether through any statutory body or a private agency, through advertisements or through friends and relatives. Full particulars to be given)	
12.	तोहफे द्वारा अर्जन के मामले में, क्या सी. सी. एस. (आचरण) नियम १३ के तहत भी अनुमति लेना आवश्यक है /In the case of acquisition by gifts, whether sanction is also required under Rule 13 of the CCS (Conduct) Rules, 1964	
13.	निवेदक किसी अन्य तथ्य का वर्णन करना चाहता हो /Any other relevant fact which the applicant may like to mention	

#### घोषणा / DECLARATION

मैं, ----- एतद्वारा घोषित करता हूँ कि उपर दिए गए विवरण सत्य हैं । मैं निवेदन करता हूँ कि मुझे उस पक्ष से, जिसका नाम उपर मद ११ में वर्णित किया है, उपरोक्त संपत्ति के अर्जन/निपटान करने की अनुमति प्रदान करें  
I, \_\_\_\_\_, hereby declare that the particulars given above are true. I request that I may be given permission to acquire/dispose of property as described above from/to the party whose name is mentioned in item 11 above.

अथवा / Or

मैं, ----- एतद्वारा संपत्ति के अर्जन/निपटान की सूचना देता हूँ । मैं घोषणा करता हूँ कि उपर दिए गए विवरण सत्य हैं  
I \_\_\_\_\_ hereby intimate the acquisition/disposal of property by me as detailed above. I declare that the particulars given above are true.

हस्ताक्षर Signature	पदनाम Designation	कर्मि संख्या Emp. No.
विभाग/अनुभाग Dept./Section	दिनांक Date	स्टेशन Station

संबद्ध माध्यम के द्वारा  
Through proper channel

नोट/Note : 1 - उपर के फार्म में विभिन्न भागों का आवश्यकतानुसार उपयोग करें /In the above form different portions may be used according to requirement.

नोट/Note : 2 - जब अग्रिम अनुमति की माँग की जा रही हो, लेन-देन के मंतव्य तिथि से, कम से कम ३० दिन पूर्व प्रस्तुत करना होगा /Where previous sanction is asked for, the application should be submitted at least 30 days before the proposed date of the transaction.